

प्रेस नोट

ग्राम शिवपुर में हुई हत्या के वांछित अभियुक्त गिरफ्तार थाना गगहा जनपद गोरखपुर

जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गोरखपुर के दिशानिर्देश में व श्री विपुल कुमार श्रीवास्तव पुलिस अधीक्षक दक्षिणी महोदय व श्री नितेश सिंह पुलिस उपाधीक्षक बांसगाव के कुशल मार्ग निर्देशन में थाना प्रभारी प्रवेश कुमार सिंह मय पुलिस फोर्स के ग्राम शिवपुर में हुई मृतक राजेश्वर पाण्डेय के हत्या के वांछित में थाना प्रभारी मय हमराहीयान के थाना हाजा से रवाना होकर वांछित की तलाश में रावतपार में मौजूद था कि मुखबीर खास आकर मिला व बताया कि साहब आपके थाने के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त ब्रहमा उर्फ ब्रहमानन्द पाण्डेय पुत्र स्व० देवीशरण निवासी ग्राम शिवपुर सुकरौली थाना गगहा, गोरखपुर जो ग्राम शिवपुर के हत्या के मामले में वांछित चल रहा है। इस समय हाटा बाजार में मौजूद है। उक्त सूचना पर मुखबिर को साथ लेकर पुलिस टीम हाटा बाजार पंहुचीजहां मुखबिर के निशानदेही पर एक व्यक्ति को पकड़कर नाम पता पूछा गया तो अपना नाम बताया ब्रहमा उर्फ ब्रहमानन्द पाण्डेय पुत्र स्व० देवीशरण निवासी ग्राम शिवपुर सुकरौली थाना गगहा, गोरखपुर जो मु०अ०सं० 587/2020 धारा 147,148,149,302,504,34 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त है। कारण गिरफ्तारी बताकर अभियुक्त उपरोक्त को समय करीब 11.10 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया, जिन्हे जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण –दिनांक 16/08/2020 को ग्राम शिवपुर में घर के सामने घास छिलने की बात को लेकर विवाद हो गया था जिसमें अभियुक्तगणों द्वारा राजेश्वर पाण्डेय के पीठ में गोली मार दी गयी थी, जिनका इलाज के दौरान ले जाते समय रास्ते में मृत्यु हो गयी थी। मृतक राजेश्वर पाण्डेय के पुत्र आदित्य पाण्डेय के प्रार्थना पत्र के आधार पर मु०अ०सं० 587/2020 धारा 147/148/149/302/504/34 भादवि विरुद्ध ब्रह्मा पाण्डेय पुत्र देवीशरण पाण्डेय आदि 5 नफर पंजीकृत किया गया था। जिनमें से चार अभियुक्तगण पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं। इस प्रकार घटना में शामिल सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगणका नाम पता

1. ब्रहमा उर्फ ब्रहमानन्द पाण्डेय पुत्र स्व० देवीशरण निवासी ग्राम शिवपुर सुकरौली थाना गगहा, गोरखपुर

अभियोग जिसमें गिरफ्तारी की गयी का विवरण –

मु०अ०सं० 587/2020 धारा 147/148/149/302/504/34 भादवि

गिरफ्तारी का स्थान व समय –

हाटा बाजार दिनांक 24/09/2020 समय 11.10 बजे दिन

गिरफ्तारी टीम के सदस्यगण-

- (1) थाना प्रभारी प्रवेश कुमार सिंह
- (2) का० नन्दलाल गौड़
- (3) का० दीपू कुवंर
- (4) का० विनीत यादव